


संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा संबोधन/संदेश



हिंदी हमारे देश के राजकाज की भाषा है। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परिषद के कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है।

हिंदी हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है और अधिकांश देशवासियों द्वारा आपसी व्यवहार में प्रयोग की जाती है। इसी महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान में इसे संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी वास्तव में बहुत सरल, सहज और समृद्ध भाषा है किंतु कुछ लोग अनावश्यक रूप से कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके परिणामस्वरूप भाषा का प्रयोग सहज नहीं हो पाता इसलिए हिंदी में काम करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भाषा को सरल और सहज रूप में लिखा जाए ताकि हिंदी जानने वाले और हिंदी न जानने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा यह आसानी से समझी और अपनाई जा सके। हिंदी ने सभी भारतीय प्रांतीय भाषाओं का आदर करते हुए, उनके शब्दों तथा भावों को आत्मसात करके हुए न केवल अपने शब्द भंडार में समृद्धि हासिल की अपितु देश की एकता, अखंडता को संजोए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस वर्ष हमने ऑनलाइन माध्यम से हिंदी पखवाड़ा 2020 के वेबपेज पर संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों से हिंदी कहानी, कविता और निबंध में प्रविष्टियाँ आमंत्रित और प्राप्त करने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित डा॰ सुनील जोगी की कविताओं का भी आनंद लिया। इस बार के कार्यक्रम की मुख्य विशेषता हमारे संकाय सदस्यों द्वारा की गई परिचर्चाएं रही जिनमें हिंदी की संभावनाओं और चुनौतियों के साथ ही राजकाज की भाषा हिंदी पर भी विचार मंथन किया गया। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। यह बेहतर होगा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना अधिक से अधिक सरकारी कार्य मूल रूप से हिंदी में ही करने का प्रयास करें तथा बैठकों में हिंदी में ही वार्तालाप करें। टिप्पणियाँ और पत्र भी सरल हिंदी भाषा में लिखें जाएं जिससे हिंदी में कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सकेगा।

मैं अपने सभी सहकर्मियों से अनुरोध करता हूँ कि वे हिंदी में कार्य करने का प्रयास निरंतर जारी रखें और समस्त कार्मिकों को बधाई देते हुए यह आशा करता हूँ कि वे अपने कार्यालयी कार्य हिंदी में करने के लिए पहले से अधिक उत्साहित होंगे और अपने साथी कर्मचारियों का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे।

धन्यवाद !